

ये अव्यक्त इशारे

परोपकार की भावना से सम्पन्न बन अपकारियों
पर भी उपकार करो

12-07-2024

संगठन में दूसरे की गलती को अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक-दूसरे में फेथ होगा। इसमें समाने की शक्ति भी जरूर चाहिए। देखा और सुना उसको बिल्कुल समा कर, वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की वा एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे तब कहेंगे परोपकारी आत्मा।

Be full with the feeling of uplifting others and have mercy on those who defame you.

To consider a mistake made by someone in your gathering to be your mistake means to strengthen the gathering. You can do this when you have faith in one another. For this you definitely need the power to accommodate. When you totally accommodate whatever you see or hear, when your vision is of soul consciousness and benevolence, when your feelings are of mercy for one another, then your gathering will be made powerful. And, with such a gathering, there will be success. At present, you ask for success, but at that time success will bow down to you.